



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 10, 2008/पौष 20, 1929

No. 56]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2008/PAUSA 20, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2008

का.आ. 78(अ).—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिनांक 30 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 28 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 2675 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई तालिका में,—

(क) क्रम संख्या 38 के स्तम्भ (3) की प्रविष्टि “केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में स्थित स्थान” पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित होगी, नामतः—

“केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में स्थित और सारा सहारा कम्पलैक्स, मुम्बई नामक प्लॉट संख्या 7 से 10 तक, पलटन रोड ।”

(ख) क्रम संख्या 55 के स्तम्भ (3) की प्रविष्टि “केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में स्थित स्थान” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित होगी नामतः—

“केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में स्थित और सारा सहारा कम्पलैक्स, मुम्बई नामक प्लॉट संख्या 7 से 10 तक, पलटन रोड को छोड़कर स्थान ।”

[फा. सं. 28012/98/90-डब्ल्यू 3]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Works Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2008

S.O. 78(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of

the Government of India in the Ministry of Urban Development number S.O. 2675, dated the 28th July, 2005, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th July, 2005, namely :—

In the table below the said notification,—

(a) against serial number 38, in Column (3), for the entry “Premises under the administrative control of Central Public Works Department situated within local limits of his Jurisdiction”, the following entry shall be substituted, namely :—

“Premises under the administrative control of Central Public Works Department situated within local limits of his Jurisdiction and Plots No. 7 to 10, Palton Road, known as Sara Sahara Complex, Mumbai.”

(b) against serial number 55, in Column (3), for the entry “Premises under the administrative control of Central Public Works Department situated within local limits of his Jurisdiction”, the following entry shall be substituted, namely :—

“Premises under the administrative control of Central Public Works Department situated within local limits of his jurisdiction excluding the Plot Nos. 7 to 10, Palton Road, known as Sara Sahara Complex, Mumbai.”

[F. No. 28012/98/90-W 3]

DEVINDER KUMAR, Under Secy.